



Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 168-2023/Ext.] CHANDIGARH, THURSDAY, SEPTEMBER 21, 2023 (BHADRA 30, 1945 SAKA)

हरियाणा सरकार

शहरी स्थानीय निकाय विभाग

आदेश

दिनांक 21 सितम्बर, 2023

संख्या 9/87/2023-4क II.— हरियाणा नगर पालिका वार्ड परिसीमन नियम, 1977 के नियम 10 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा हरियाणा सरकार, शहरी स्थानीय निकाय विभाग, अधिसूचना संख्या 9/87/2023-4क II, दिनांक 01 सितम्बर, 2023 के प्रतिनिर्देशों से नीचे दी गई अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा नगर पालिका, बराड़ा, जिला अम्बाला के वार्डों का परिसीमन प्रकाशित करते हैं :—

सीमाओं की अनुसूची

वार्ड नं० 01 :— उस बिन्दू से आरम्भ होकर जहाँ पालिका की उत्तरी सीमा पर स्थित गांव मौजगढ़ के खसरा नं० 1//17 से पालिका सीमा के साथ-साथ पूर्व दिशा की तरफ आते हुये बराड़ा के खसरा नं० 29//4 तक, उसके बाद बराड़ा के खसरा नं० 29//4 से दक्षिण दिशा की ओर कुलविन्द्र कौर के घर से गुजरते हुये भारतीय विधा मन्दिर स्कूल तक, उसके बाद पूर्व दिशा की ओर जाते हुये निर्मलजीत सिंह के घर से गुजरते हुये दक्षिण दिशा की ओर भूषण लाल की दुकान तक, उसके बाद पश्चिम दिशा की ओर बसंतपूरा फाटक पर हैप्पी ट्रेडर्स की दुकान से गुजरते हुये उगाला रोड़ पर चलते हुये पालिका सीमा तक, उसके बाद उत्तर दिशा की ओर पालिका सीमा में स्थित गांव मौजगढ़ के खसरा नं० 1//17 तक, जोकि प्रारम्भिक बिन्दू है।

वार्ड नं० 02 :— उस बिन्दू से आरम्भ होकर जहाँ कुम्हार मौहल्ले में कृष्णा देवी के घर से पूर्व की तरफ जाते हुये सुदेश रानी के खाली प्लाट से गुजरते हुये उत्तर दिशा की ओर बलबीर सिंह की दुकान से जैन ज्वैलर्स तक, उसके बाद दक्षिण दिशा में जाते हुये रेलवे स्टेशन से पश्चिम दिशा की ओर भूषणलाल की दुकान से उत्तर दिशा की ओर कृष्णा देवी के घर तक, जोकि प्रारम्भिक बिन्दू है।

वार्ड नं० 03 :— उस बिन्दू से आरम्भ होकर जहाँ जनकपुरी कलोनी में बराड़ा के खसरा नं० 81//14 के पश्चिम छोर से पूर्वी छोर की तरफ चलते हुये दक्षिण दिशा की ओर राजिन्द्र कौर के घर से पूर्व दिशा की ओर संजीव कुमार के घर तक, उसके बाद उत्तर दिशा की ओर सुभाष हरिमिलाप के खाली प्लाट से पूर्व दिशा की ओर संजय के घर से दक्षिण दिशा की ओर नरेश कुमार के घर से पूर्व दिशा की ओर मेन रेलवे स्टेशन रोड़ पर नानक चन्द की दुकान (सहगल बूट हाउस) तक, उसके बाद दक्षिण दिशा की ओर मेन रेलवे स्टेशन रोड़ पर सुशील गुप्ता की दुकान (पुरानी जैन ज्वैलर्स) से पश्चिम दिशा की ओर सतपाल गोयल के घर से दक्षिण दिशा की ओर दलजीत सिंह के घर तक, उसके बाद पश्चिम दिशा की ओर सुखविन्द्र सिंह के घर से उत्तर दिशा की ओर बराड़ा के खसरा नं० 81//14 तक, जोकि प्रारम्भिक बिन्दू है।

वार्ड नं० 04 :— उस बिन्दू से आरम्भ होकर जहाँ पालिका की उत्तरी सीमा पर स्थित बराड़ा के खसरा नं० 29//5 से पालिका सीमा के साथ-साथ पूर्व दिशा की तरफ जाते हुये बराड़ा के खसरा नं० 5//20 से दक्षिण दिशा की ओर जाते हुये बराड़ा के खसरा नं० 55//19 तक, उसके बाद दक्षिण पूर्व दिशा में संतोश रानी के मकान से गुजरते हुये दक्षिण दिशा में

सुरेन्द्र बाला के मकान तक, उसके बाद पश्चिम दिशा में जाते हुये शादीलाल के मकान से दक्षिण दिशा की ओर सतविन्द्र कौर के खाली प्लाट से पश्चिम दिशा की ओर कृष्ण लाल के खाली प्लाट तक, उसके बाद दक्षिण दिशा की ओर जाते हुये सुखविन्द्र सिंह के मकान से गुजरते हुये पश्चिम दिशा में मार्डन स्कूल से गुजरते हुये निर्मल के खाली प्लाट तक, उसके बाद उत्तर दिशा की ओर जाते हुये रविन्द्र कौर के घर से खसरा नं० 81/ /14 तक, उसके बाद उत्तर दिशा की ओर पालिका सीमा के बराड़ा के खसरा नं० 29/ /5 तक, जोकि प्रारम्भिक बिन्दू है।

वार्ड नं० 05 :- उस बिन्दू से आरम्भ होकर जहाँ करनाल कलोनी में गुरदयाल के घर से राजीव गांधी सेवा केन्द्र (मनरेगा भवन) वाली गली से गुजरते हुये मेन रेलवे स्टेशन रोड पर सचिन कुमार की दुकान से दक्षिण दिशा की ओर जाते हुये सतप्रकाश बंसल की दुकान (सहगल गारमैट्स) से पश्चिम दिशा की ओर पुष्पा रानी के घर तक, उसके बाद उत्तर दिशा की ओर वीर चन्द के घर से पश्चिम दिशा की ओर अजय कुमार के घर तक, उसके बाद उत्तर दिशा की ओर करनाल कलोनी में गुरदयाल के घर तक, जोकि प्रारम्भिक बिन्दू है।

वार्ड नं० 06 :- उस बिन्दू से आरम्भ होकर जहाँ पालिका सीमा बराड़ा के खसरा नं० 5/ /22 से पूर्व दिशा की ओर पालिका सीमा के साथ-साथ बराड़ा के खसरा नं० 11/ /20 से दक्षिण दिशा की ओर जाते हुये बराड़ा के खसरा नं० 56/ /10/1 तक, उसके बाद पूर्व दिशा की ओर जाते हुये मेन दोसड़का रोड से दक्षिण दिशा की ओर जगदीश की दुकान (डौमनिक पिज्जा) से पश्चिम दिशा की ओर बलवन्त सिंह के घर तक, उसके बाद उत्तर दिशा की ओर तलविन्द्र सिंह के घर से बराड़ा के खसरा नं० 55/ /19 तक, उसके बाद बराड़ा के खसरा नं० 55/ /19 से पालिका सीमा बराड़ा के खसरा नं० 5/ /22 तक, जोकि प्रारम्भिक बिन्दू है।

वार्ड नं० 07 :- उस बिन्दू से आरम्भ होकर जहाँ पालिका सीमा बराड़ा के खसरा नं० 11/ /20 पूर्व दिशा की ओर पालिका सीमा के साथ-साथ जाते हुये बराड़ा के खसरा नं० 17/ /23 से दक्षिण दिशा की ओर आते हुये बराड़ा के खसरा नं० 59/ /16 से बराड़ा के खसरा नं० 59/ /23 तक, उसके बाद दक्षिण दिशा की ओर अशरफ अली के मकान से पश्चिम दिशा की ओर जाते हुये अंजना के घर तक, उसके बाद दक्षिण दिशा की ओर जाते हुये पुराने गुरुद्वारे के पास से गुजरते हुये गुरचरण कौर की दुकान के पास से उत्तरी सीमा की ओर से जोहड़ के उपरी सीमा से गुजरते हुये चांद राम के घर तक, उसके बाद पश्चिम दिशा में मेन दोसड़का रोड से उत्तर दिशा की ओर गुलाटी टायर के सामने मॉडर्न कापैलक्स कालोनी की ओर जाते हुये बराड़ा के खसरा नं० 56/ /10/1 से उत्तर दिशा की ओर पालिका सीमा बराड़ा के खसरा नं० 11/ /20 तक, जोकि प्रारम्भिक बिन्दू है।

वार्ड नं० 08 :- उस बिन्दू से आरम्भ होकर जहाँ पालिका सीमा बराड़ा के खसरा नं० 17/ /23 से पूर्व दिशा की ओर पालिका सीमा के साथ-साथ जाते हुये बराड़ा के खसरा नं० 15/ /21/2 तक, उसके बाद दक्षिण दिशा की ओर बराड़ा के खसरा नं० 72/ /6/2 से गांव की फिरनी से होते हुये मीनू वैध के घर से दक्षिण दिशा की ओर राजेश कुमार के घर तक, उसके बाद पटवार खाने से होते हुये तरसेम डॉक्टर वाली गली से मेन गांव की फिरनी तक, फिरनी के साथ-साथ चलते हुये वाल्मिकि बस्ती की तरफ नगर खेड़े से होते हुये जसबीर सिंह के घर तक, उसके बाद उत्तर दिशा में पकंज राणा के प्लाट से पूर्व की ओर हरजिन्द्र सिंह के घर तक, उसके बाद उत्तर दिशा की ओर पालिका सीमा बराड़ा के खसरा नं० 17/ /23 तक, जोकि प्रारम्भिक बिन्दू है।

वार्ड नं० 09 :- उस बिन्दू से आरम्भ होकर जहाँ पालिका सीमा बराड़ा के खसरा नं० 15/ /21/2 से पालिका सीमा के साथ-साथ जाते हुये बराड़ा के खसरा नं० 93/ /25 से उत्तर पश्चिम दिशा की ओर अम्बेडकर भवन से होते हुये जोहड़ की उपरी सतह से गुजरते हुये वृद्ध आश्रम तक, उसके बाद उत्तर पूर्व दिशा की ओर मेन गांव बराड़ा की फिरनी से होते हुये दिग्विजय सिंह की दुकान से पटवार खाना वाली गली की ओर राज बाला के घर से उत्तर पूर्व दिशा की ओर घुमते हुये प्रेम सिंह गुरुद्वारा से होते हुये बराड़ा के खसरा नं० 72/ /6/2 तक, उसके बाद उत्तर दिशा की ओर पालिका सीमा बराड़ा के खसरा नं० 15/ /21/2 तक, जोकि प्रारम्भिक बिन्दू है।

वार्ड नं० 10 :- उस बिन्दू से आरम्भ होकर जहाँ गांव बराड़ा की फिरनी पर पुराने गुरुद्वारे के सामने विनोद कुमार की दुकान से पूर्व दिशा की ओर पटवार खाने वाली गली से होते हुये अजय प्रताप सिंह चौहान के घर तक, उसके बाद बराड़ा गांव की फिरनी के साथ-साथ तेजिन्द्र चौहान के घर से प्राइमरी स्कूल तक, उसके बाद उत्तर दिशा की ओर विनोद कुमार की दुकान तक, जोकि प्रारम्भिक बिन्दू है।

वार्ड नं० 11 :- उस बिन्दू से आरम्भ होकर जहाँ मेन दोसड़का रोड पर चीमा डेयरी से पूर्वी तरफ पीटू राणा कलोनी में जाते हुये जोहड़ की उपरी सतह से गुजरते हुये मेन बराड़ा गांव की फिरनी तक, उसके बाद दक्षिण की ओर रविदास मन्दिर से पूर्व दिशा में जाते हुये दविन्द्र सिंह के घर तक, उसके बाद दक्षिण दिशा की ओर जाते हुये मोहन लाल के खाली प्लाट से गुजरते हुये सीधा मेन दोसड़का रोड तक, उसके बाद मेन दोसड़का रोड पर उत्तर दिशा की तरफ जाते हुये चीमा डायरी तक, जोकि प्रारम्भिक बिन्दू है।

वार्ड नं० 12 :- उस बिन्दू से आरम्भ होकर जहाँ मेन दोसड़का रोड पर प्रताप सिंह की दुकान से पूर्व दिशा की ओर जोहड़ उपरी सतह से गुजरते हुये पालिका सीमा बराड़ा के खसरा नं० 93/ /25 तक, उसके बाद पालिका सीमा के साथ-साथ दक्षिण पूर्व दिशा में जाते हुये बराड़ा के खसरा नं० 137/ /24 तक, उसके बाद उत्तर दिशा की ओर आते हुये अनाज मण्डी के पिछे की तरफ से होते हुये रेलवे लाईन तक, उसके बाद पूर्व की दिशा में रेलवे लाईन के साथ-साथ आते हुये ओवर ब्रिज

तक, उसके बाद उत्तर दिशा की ओर बराड़ा के खसरा नं० 114//14 से पश्चिम दिशा की ओर बराड़ा के खसरा नं० 113//13 तक, उसके बाद उत्तर दिशा की तरफ बराड़ा के खसरा नं० 113//8 से बराड़ा के खसरा नं० 113//9 तक, उसके बाद उत्तर दिशा में सैलजा गर्ग के खाली प्लाट से पश्चिम दिशा में चर्च तक, चर्च से लेकर दक्षिण दिशा की ओर नरेन्द्र कौर के मकान तक, उसके बाद पश्चिम दिशा की ओर सुशील जैन, ज्ञान चन्द के खाली प्लाट से उत्तर पूर्व दिशा की ओर सरकारी स्कूल से गुजरते हुये क्वालिटी चौक तक, उसके बाद दक्षिण दिशा की ओर प्रताप सिंह की दुकान तक, जोकि प्रारम्भिक बिन्दू है।

वार्ड नं० 13 :- उस बिन्दू से आरम्भ होकर जहाँ मेन दोसडका भाहबाद रोड़ पर महाराणा प्रातप चौक के पास स्थित मन्दिर से क्वालिटी चौक की तरफ जाते हुये बीकानेर मिष्ठान भंडार तक, उसके बाद सरकारी स्कूल रोड़ की तरफ जाते हुये शर्मा बुक डिपो से पालिका की दुकानों से होते हुये मेन रेलवे रोड़ से महाराणा प्रताप चौक के पास स्थित मन्दिर तक, जोकि प्रारम्भिक बिन्दू है।

वार्ड नं० 14 :- उस बिन्दू से आरम्भ होकर जहाँ मेन रेलवे रोड़ पर राजकीय पशु चिकिस्तक हस्पताल से सुलभ भौचालय की तरफ से गुजरते हुये गार्गी स्कूल तक, उसके बाद उत्तर पूर्व दिशा की ओर प्रमीला जैन की दुकान से पूर्व की ओर जाते हुये प्रेम चन्द के घर तक, उसके बाद उत्तर दिशा की ओर आते हुये प्रेम सिंह काम्पलैक्स के मेन गेट से पूर्व की ओर जाते हुये कुसुम के घर तक, उसके बाद दक्षिण दिशा की ओर जाते हुये निर्मला देवी के घर से पूर्व की ओर बराड़ा के खसरा नं० 113//8 तक, उसके बाद दक्षिण पूर्वी दिशा की ओर बराड़ा के खसरा नं० 113//19 से दक्षिण पूर्वी दिशा की ओर बराड़ा के खसरा नं० 114//18 से दक्षिण दिशा की ओर ओवर ब्रिज के साथ-साथ रेलवे लाईन तक, उसके बाद पश्चिम दिशा की ओर रेलवे लाईन के साथ-साथ रेलवे स्टेशन तक, उसके बाद उत्तर दिशा की तरफ राजकीय पशु चिकिस्तक हस्पताल तक, जोकि प्रारम्भिक बिन्दू है।

वार्ड नं० 15 :- उस बिन्दू से आरम्भ होकर जहाँ सिंहपुरा फाटक से पूर्व दिशा की ओर रेलवे लाईन के साथ-साथ जाते हुये न्यू रेलवे कलोनी तक, उसके बाद दक्षिण दिशा की ओर जाते हुये अनाज मण्डी के पिछे से गुजरते हुये पालिका सीमा बराड़ा के खसरा नं० 137//24 से पश्चिम दिशा की ओर बराड़ा के खसरा नं० 109//25 तक के बाद उत्तर दिशा की ओर सिकंदर के खाली प्लाट से पूर्व की ओर जाते हुये रेखा रानी के घर तक उसके बाद उत्तर दिशा की तरफ फकीर चन्द की दुकान से सिंहपुरा फाटक तक, जोकि प्रारम्भिक बिन्दू है।

वार्ड नं० 16 :- उस बिन्दू से आरम्भ होकर जहाँ पालिका की सीमा उगाला रोड़ से प्रारम्भ होकर बसंतपूरा फाटक तक जाती है, उसके बाद बसंतपूरा फाटक से सिंहपुरा फाटक तक, उसके बाद दक्षिण दिशा की ओर सतीश कुमार की दुकान से राजीव कुमार की दुकान तक, उसके बाद दक्षिण की ओर विनोद कुमार के खाली प्लाट से पश्चिम की ओर लीला वती के घर तक, उसके बाद पालिका सीमा बराड़ा के खसरा नं० 109//25 से पश्चिम दिशा की ओर पालिका सीमा मौजगढ के खसरा नं० 27//12 से गुजरते हुये मौजगढ के खसरा नं० 28//22 तक, उसके बाद उत्तर दिशा की ओर पालिका सीमा के साथ-साथ चलते हुये उगाला रोड़ तक, उगाला रोड़ से बसंतपूरा फाटक तक, जोकि प्रारम्भिक बिन्दू है।

विकास गुप्ता,
आयुक्त एवं सचिव, हरियाणा सरकार,
शहरी स्थानीय निकाय विभाग।

HARYANA GOVERNMENT
URBAN LOCAL BODIES DEPARTMENT

Order

The 21st September, 2023

No. 9/87/2023-4CII.— In exercise of the powers conferred under rule 10 of the Haryana Municipal Delimitation of Ward Rules, 1977 and with reference to the Haryana Government, Urban Local Bodies Department, notification No. 9/87/2023-4CII dated 01st September, 2023, the Governor of Haryana hereby publishes the delimitation of the wards of **Municipal Committee, Barara, District Ambala** as specified in the schedule given below, namely:-

SCHEDULE OF BOUNDARIES

Ward No. 01 :- Starting from Khasra No. 1//17 of village Maujgarh located on the northern boundary of the Municipality, thence going alongwith the Municipal boundary in the Eastward upto Khasra No. 29//4 of Village Barara, going into south direction and passing through house of Kulwinder Kaur upto Bhartiya Vidha Mandir School, thence going into East direction passing through the house of Nirmaljit Singh in south direction and upto Bhushan Lal shop, thence going into West direction and passing Happy Traders shop at Basantpura Gate, thence going on Ugala road upto the Municipal limits, thence going into North direction reaching upto Khasra No. 1//17 of village Maujgarh situated in Municipal limit i.e. starting point.

Ward No. 02 :- Going east from Krishna Devi house in Kumhar Mohalla, passing Sudesh Rani vacant plot, north and Balbir Singh shop to Jain Jewellers, then going south, west to railway station direction and from Bhushan Lal shop to the north direction and to Krishna Devi house, i.e starting point.

Ward No. 03 :- Starting from the west end of Khasra No. 81 // 14 of village Barara in Janakpuri Colony, moving towards the eastern end, in the south direction and from the house of Rajinder Kaur, in the east direction and upto the house of Sanjeev Kumar, then in the north direction and from the vacant plot of Subhash Harimilap East direction and south direction from Sanjay house and east direction from Naresh Kumar house and on Main Railway Station Road upto Nanak Chand shop (Sahgal Boot House), then south direction and on Main Railway Station Road Sushil Gupta shop (Old Jain Jewellers) in west direction and from Satpal Goyal house in south direction and upto Daljit Singh house, then in west direction and in north direction from Sukhwinder Singh house and upto Khasra No. 81//14 of village Barara, i.e starting point.

Ward No. 04 :- Starting from Khasra No. 29 // 5 of village Barara located on the northern boundary of the Municipality, along with the Municipality boundary, going towards the east direction from Khasra No. 5 // / 20 of village Barara to the south direction upto Khasra No. 55 // 19 of village Barara , then passing through the house of Santosh Rani in the south-east direction, upto the house of Surendra Bala in the south direction, then going in the west direction, from the house of Shadilal in the south direction and from the empty plot of Satvinder Kaur, in the west direction and from the house of Krishan Lal. Up to the vacant plot, then going in the south direction, passing through the house of Sukhwinder Singh, in the west direction, passing through the Modern School, upto the vacant plot of Nirmal, then going in the north direction from the house of Ravindra Kaur, Khasra No. 81 // 14 of village Barara, then in the north direction and up to Khasra No. 29 // 5 of village Barara , i.e starting point.

Ward No. 05 :- Starting from Gurdayal house in Karnal Colony, passing through the street of Rajiv Gandhi Seva Kendra (MGNREGA Bhavan) and going south from Sachin Kumar shop on Main Railway Station Road, from Satprakash Bansal shop (Sehgal Garments) West and up to Pushpa Rani house, then north and from Veer Chand house, west and up to Ajay Kumar house, then north and up to Gurdayal house in Karnal Colony, i.e starting point.

Ward No. 06 :- Starting From Khasra No. 5// 22 of village of Barara in the east direction of the Municipality limits and going along the Municipality limits from Khasra No. 11// 20 of village Barara in the south direction upto Khasra No. 56// 10/1 of village Barara, then going towards east direction from Main Dosadka Road to south direction and from Jagdish shop (Domnik Pizza) to west direction and upto Balwant Singh house, then north direction and from Talwinder Singh house upto Khasra No. 55//19 of village Barara, then from Khasra No. 55// 19 to Khasra No. 5// 22 of village Barara of i.e starting point.

Ward No. 07 :- Starting from Khasra No. 11 // 20 of village Barara east of the Municipality limits and going along the Municipality limits from Khasra No. 17 // 23 of village Barara to the south and thence going into from Khasra No. 59// 16 to Khasra No. 59// / 23 of village Barara, then in south direction and passing in west direction from Ashraf Ali house upto Anjana house, then in south direction passing near old gurdwara and passing near Gurcharan Kaur shop in north boundary And passing through the upper limit of pond up to Chand Ram house, then in west direction from Main Dosadka Road in north direction and in front of Gulati Tire to Modern Complex Colony and going towards Khasra No. 56//10/1 of village Barara in north direction. of and up to Khasra No. 11//20 of village Barara , i.e starting point.

Ward No. 08 :- Starting from Khasra No. 17 // 23 of village Barara of the Municipality boundary in the east direction and going along with the Municipality boundary upto Khasra No. 15 // /21/2 of village Barara, then in the south direction and Khasra No. 72 // 6/2 of Village Barara from Meenu Vaidh house in the south direction to Rajesh Kumar house, then through Patwar Khana, from Tarsem Doctor Wali Gali to Main Village Phirni, thence alongwith Phirni to Valmaki Basti. side *via* Nagar Kheda upto the house of Jasbir Singh, then in the north direction from Pakanj Rana plot to the east and upto the house of Harjinder Singh, thence going into north direction upto Khasra No. 17 // 23 of village Barara i.e. starting point.

Ward No. 09 :- Starting from Khasra No. 15// 21/2 of the Municipality boundary, going along with the Municipality boundary, from Khasra No. 93 // 25 in the north-west direction and passing through Ambedkar Bhawan, passing through the upper surface of Pond. Up to the Ashram, then in the north-east direction and passing through Phirni of Main village Barara, from Digvijay Singh shop to Patwar Khana Wali Gali and from Raj Bala house in the north-east direction and passing through Prem Singh Gurdwara, Khasra No. 72 //6/2, then in the north direction and up to Khasra No. 15/ /21/2 of village Barara, i.e starting point.

Ward No. 10 :- Starting from Phirni of village Barara, in front of the old gurudwara, from Vinod Kumar shop in the east direction and through Patwar Khana street upto the house of Ajay Pratap Singh Chauhan, then along with Phirni of village Barara Tejinder Chauhan From home to primary school, then north to Vinod Kumar shop, i.e starting point.

Ward No. 11 :- Starting from Cheema Dairy on Main Dosadka Road, going to Pintu Rana Colony on the eastern side, passing through the upper surface of pond upto Phirni of Main Barara village, then south and going east from Ravidass Mandir to Davinder Singh house. to, then going southwards passing through vacant plot of Mohan Lal straight up to Main Dosadka Road, then going north on Main Dosadka Road upto Cheema Dairy, i.e starting point.

Ward No. 12 :- Starting from Pratap Singh shop on Main Dosadka Road in east direction and passing through Pond upper surface upto Khasra No. 93//25 of village Barara Palika limit, after that Khasra no. 137 // 24 of village Barara, then going in the north direction upto the railway line passing through the back side of Anaj Mandi, then in the east direction thence going alongwith the railway line upto the over bridge, then in the north direction And from Khasra No. 114// 14 of village Barara in the west direction and upto Khasra No. 113 // 13 of village Barara, then in the north direction from Khasra No. 113 // 8 to Khasra No. 113 // 9 of village Barara, then in the north direction upto Selja Garg empty From the plot in the west direction to the church, from the church in the south direction and upto the house of Narendra Kaur, then in the west direction and from the vacant plot of Sushil Jain, Gyan Chand in the north east direction and passing the government school upto Quality Chowk, After that in the south direction and upto the shop of Pratap Singh, i.e starting point.

Ward No. 13 :- Starting from main Dosadka Shahabad Road near Maharana Pratap Chowk, from Mandir towards Kwaliti Chowk, upto Bikaner Misthan Bhandar, thence towards Government School Road, then from Sharma Book Depot, going towards Municipal shops, Main Railway Road From to the temple near Maharana Pratap Chowk, i.e starting point.

Ward No. 14 :- Starting from Main Railway Road from Government Veterinary Hospital passing Sulabh Toilet upto Gargi School, then north east and going east from Pramila Jain shop upto Prem Chand house, then north Thence going intotowards East from Main Gate of Prem Singh Complex, going towards Kusum house, then towards South, going towards East from Nirmala Devi house and upto Khasra No. 113//8 of village Barara, then towards South East direction and from Khasra No. 113/ / 19 of village Barara in South East direction and from Khasra No. 114// 18 of village Barara in South direction and along with over bridge upto railway line, then in west direction and along with railway line upto railway station to, then in the north direction upto the Government Veterinary Hospital, i.e starting point.

Ward No. 15 :- Starting from the point where from Singhpura Gate in the east direction and going along the railway line till New Railway Colony, then going south direction and passing behind Anaj Mandi, Khasra of Palika Seema Barara. From No. 137//24 in the west direction and after Barara Khasra No. 109//25, in the north direction and going east from Sikandar vacant plot, till Rekha Rani house, then towards north direction, shop of Fakir Chand to Singhpura Gate, i.e starting point.

Ward No. 16 :- Starting from Ugala Road to Basantpura Gate, from Basantpura Gate to Singhpura Gate, then south and from Satish Kumar shop to Rajeev Kumar shop, then south and west from Vinod Kumar vacant plot and Leela Up to the house of Leelawati, then in the west direction from Khasra No. 109 // 25 of the Municipal limits and passing through Khasra No. 27 // 12 of the Municipal limits upto Khasra No. 28 // 22, then in the north direction and to the Municipal limits Running side by side up to Ugala Road, from Ugala Road to Basantpura Gate, i.e starting point.

VIKAS GUPTA,
Commissioner and Secretary to Government, Haryana,
Urban Local Bodies Department.